

प्रेस नोट

आज दिनांक 22.02.2021 को थाना जंसा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0030/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) सोनेलाल राय उर्फ सोमारु पुत्र उमानाथ उर्फ उमाशंकर राजभर निवासी ग्राम अवलेशपुर थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 42 वर्ष, (2) राजेन्द्र प्रसाद राजभर पुत्र स्व0 जियुत राम राजभर निवासी ग्राम बन्देपुर थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 46 वर्ष व (3) कैलाश राजभर पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी ग्राम देल्हना थाना रोहनिया वाराणसी उम्र 40 वर्ष को अकेलवा चौराहे के पास से समय करीब 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जंसा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सोनेलाल राय उर्फ सोमारु पुत्र उमानाथ उर्फ उमाशंकर राजभर निवासी ग्राम अवलेशपुर थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 42 वर्ष
2. राजेन्द्र प्रसाद राजभर पुत्र स्व0 जियुत राम राजभर निवासी ग्राम बन्देपुर थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 46 वर्ष
3. कैलाश राजभर पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी ग्राम देल्हना थाना रोहनियां वाराणसी उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. *अभियुक्त सोनेलाल राय*

- I. मु0अ0सं0 30/21 धारा 3(1)यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना जंसा वाराणसी
- II. मु0अ0स0 287/2017 धारा 419,406,420,504 भादवि थाना जंसा वाराणसी
- III. मु0अ0स0 911/18 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि थाना लंका वाराणसी

1. *अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद*

- I. मु0अ0सं0 30/21 धारा 3(1)यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना जंसा वाराणसी
- II. मु0अ0स0 287/2017 धारा 419,406,420,504 भादवि थाना जंसा वाराणसी

2. *अभियुक्त कैलाश राजभर*

- I. मु0अ0सं0 30/21 धारा 3(1)यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना जंसा वाराणसी
- II. मु0अ0स0 287/2017 धारा 419,406,420,504 भादवि थाना जंसा वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0आदित्य सिंह, हे0का0अशोक सिंह व का0दीपक गुप्ता थाना जंसा वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 22.02.2021 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ यातायात लाईन स्थित सभागार में अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। इस दौरान थानों पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने, लम्बित विवेचनाओं को अभियान चलाकर निस्तारित करने, विभिन्न थानों में चल रहे निर्माण कार्य गुणवत्ता परक हो इस हेतु नियमित निरीक्षण करने, आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भूमि/अन्य पुराने विवादों को चिन्हित कर निस्तारित करने, अराजक/दबंग/गुण्डा/माफिया आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा करने, अवैध शराब/अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने, आदि के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी से पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिनके उचित निस्तारण हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





प्रेस नोट

आज दिनांक 09.11.2020 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा यातायात लाईन स्थित सभागार में प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों की संयुक्त गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत की जाने वाली तैयारियों, भूमि विवाद/अन्य पुराने विवादों को चिन्हित कर निस्तारित करने, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने, आगामी त्यौहारों रविदास जयन्ती/शिवरात्री आदि के दृष्टिगत किये जाने वाले प्रबन्धों, शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के विरूद्ध कार्यवाही, वाराणसी को भिक्षावृत्ति/बाल मजदूरी मुक्त बनाने आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 129/2021 दिनांक: फरवरी, 22/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 168 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4663 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 672 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 170 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1450 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी, 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 294 भादवि की कार्यवाही व 108 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।